

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 08-09-2021

**थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्त को धारा 60ExcAct आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।**

डा0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रतापसिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता श्री सौदागर राय के नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2021 को धारा 60ExcAct आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत एक अभियुक्त को मु0अ0सं0 04/21 धारा 60ExcActआबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1.रामबली पुत्र फैलाने निवासी तौलिहवा टोला लालपुर थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर **बरामदगी का विवरण-**10लीटर कच्ची देशी शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

### **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. उ0नि0 वीरेंद्र कुमार कुंवर थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
02. हे0 का0 सुरेश वरुण थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
03. हे0का0 अवधेश यादव थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 08-09-2021

**जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्कवाड पुलिस टीम द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी ।**

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना जोगिया उदयपुर, बासी, गोल्हौरा में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 02 शोहदो पकड़े गये । पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया ।

### **एण्टी रोमियों टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर
- 04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 08-09-2021

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को इस आशय से निर्देशित किया गया था कि उनके थाने पर पंजीकृत अभियोगों की विवेचनाओं में विवेचनात्मक कार्यवाही में विलम्ब होने से पीड़ित पक्ष को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वादी पक्ष द्वारा पुलिस/विवेचक के प्रति असंतोष प्रकट किया जाता है और पुलिस कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाता है, पुलिस की अच्छी छवि बनाने हेतु तथा विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण आदि परिस्थितियों को देखते हुये **"वादी संवाद दिवस"** का आयोजन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत वादी पक्ष विवेचक से संवाद स्थापित कर अपनी बात मुखर रूप से रख सके, जिसमें सभी विवेचक, थाना प्रभारी द्वारा अपने सभी विवेचनाओं के साथ वादी के समस्याओं सहित प्रतिभाग करेंगे और विवेचना में आ रही कठिनाईयों/समस्याओं के सम्बन्ध में संवाद करेंगे। **इसी क्रम में आज दिनांक 08-09-2021 दिन बुधवार को समस्त थाना पर "वादी संवाद दिवस" का आयोजन कर निम्न अपराध शीर्षक के अन्तर्गत स्थापित किया गया।**

- 01-** धारा 363,366 भा0द0वि0 के ऐसे मुकदमें, जिसमें अपहृता की बरामदगी के सम्बन्ध में।
- 02-** शरीर सम्बन्धी अपराध के सम्बन्ध में।
- 03-** सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध के सम्बन्ध में।

